

@ Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 03.01.2021

थाना खुदागंज पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता,

साहसिक मुठभेड के दौरान 25000/रुपये का ईनामी गैंगस्टर बदमाश सर्वेश को गिरफ्तार ,

अवैध असलहा मय कारतूस बरामद ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाकर की जी रही लगातार कार्यवाही में थाना खुदागंज को मिली बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इसी क्रम में दिनांक 02.01.2021 को रात्रि करीब 10.40 बजे खुदागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 100/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25000 रु0 के ईनामी अभियुक्त सर्वेश पुत्र परमाई लाल निवासी ग्राम जिगनिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान चिरचिरा पुलिस थाना खुदागंज से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस नाल में फंसा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर मु0अ0सं0 04/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0 05/2020 धारा 3/25/27 A Act पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है । इसके द्वारा पूर्व में गौ तस्करी अपराध कारित किया गया था । तथा अभियुक्त अवैध असलहा लेकर घूमता था । जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त था । स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर सम्बन्धी मु0अ0सं0 100/2020 धारा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी । जिसमें अभियुक्त बहुत समय से वांछित चल रहा था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त सर्वेश पुत्र परमाई लाल निवासी ग्राम जिगनिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25000/-रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

नाम पता अभियुक्त :-

1-सर्वेश पुत्र परमाई लाल निवासी ग्राम जिगनिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस नाल में फंसा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1.	खुदागंज	161/2019	3/5A/8 CS ACT व 11
2.	खुदागंज	100/2020	2/3 गैंग स्टर अधिनियम
3.	खुदागंज	04/2021	धारा 307 भादवि
4.	खुदागंज	05/2021	धारा 3/25/27 A ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खान थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
- 2- उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
3. उ0नि0 श्री स्वामीनाथ थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
- 4- का0 1261 दीपक पंवार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
- 5- का0 732 अर्जुन कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
6. का0 617 वीरेन्द्र कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
7. का0 2290 अंकित तोमर थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।